



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

जुलाई 25, 2025

संख्या 30

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025		घट - बढ़	
	जुलाई 19	जुलाई 11	जुलाई 18	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3520478	3787651	3773617	-14034	253139
1.1 संचलन में नोट	3520466	3787633	3773600	-14033	253133
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	11	18	17	-1	6
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	100	101	0	0
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1006938	930199	984796	54597	-22141
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8394	8078	8037	-41	-358
2.6 अन्य बैंक	54233	52670	52329	-341	-1904
2.7 अन्य	639002	776661	738722	-37938	99721
3 अन्य देयताएं	1748890	2190245	2206803	16559	457913
कुल देयताएं / आस्तियां	6978078	7745647	7764448	18801	786370
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4957204	5084872	5095199	10327	137995
2 सोना	501909	723791	728042	4251	226133
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1345058	1787655	1788867	1212	443809
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	19805	20431	26294	5864	6489
4.3 नाबाई	-	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	6416	1223	951	-272	-5465
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात -आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	135553	106493	103826	-2667	-31727
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	10070	19118	19205	87	9135

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	जुलाई 18, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	5992373	695489	14224	-1183	280232	27163	379852	24632
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	5062860	587609	10294	-1201	212026	20052	143128	-439
1.2 स्वर्ण	728042	84499	4251	150	59880	6322	226133	24506
1.3 विशेष आहरण अधिकार	160975	18683	-368	-119	5685	514	8652	476
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	40496	4698	48	-13	2641	275	1940	88

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि; और (घ) नेक्सस ग्लोबल भुगतान के निधियन में आरबीआई का योगदान।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

जुलाई 25, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 963288 करोड़	2025													
	जुलाई 12	जुलाई 13	जुलाई 14	जुलाई 15	जुलाई 16	जुलाई 17	जुलाई 18	जुलाई 19	जुलाई 20	जुलाई 21	जुलाई 22	जुलाई 23	जुलाई 24	जुलाई 25
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	979108	974440	1004110	994174	960846	969528	991740							
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	101.6	101.2	104.2	103.2	99.7	100.6	103.0							

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

यद	जुलाई 11, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	341405	-29701	-17297	31991	31312	64232
1.2 बैंकों से उधार	95556	-5085	-45067	-16420	-58968	-41806
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	22524	-2222	2639	-7391	11403	-52566
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	23325736	-99909	701945	745135	2146395	2148565
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.4	3.4	3.3	11.3	10.1
2.1.1 मांग	2802131	-270744	-53532	104082	208895	411809
2.1.2 मीयादी	20523605	170834	755477	641053	1937500	1736755
2.2 उधारियां	855278	5059	106835	-59971	97006	-29500
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	972734	-74083	-50999	-88898	83549	86305
3 रिज़र्व बैंक से उधार	1223	158	-214512	-310243	-13243	-6981
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	1014740	-5414	24968	50452	75508	-31143
4.1 उपलब्ध नकदी	84541	-2130	4357	2667	-9693	-9249
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	930199	-3284	20611	47785	85201	-21895
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	257314	-16517	-12921	41513	-8472	71908
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	17552	-6490	-4050	-8286	-19138	9247
5.3 बैंकों को अग्रिम	29132	-2425	-6634	-10371	-2550	-12602
5.4 अन्य आस्तियां	69456	372	-2597	2103	25446	-43370
6 निवेश	6716248	19446	201088	18320	489891	408602
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.3	3.3	0.3	8.4	6.5
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6715694	19346	200974	18396	489584	409110
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	554	100	114	-76	308	-509
7 बैंक ऋण	18463163	-23036	379954	219191	2065789	1651045
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.1	2.3	1.2	14.0	9.8
7 क.1 खाद्य ऋण	58993	-5396	7182	22462	5959	28730
7 क.2 खाद्येतर ऋण	18404170	-17641	372773	196729	2059830	1622315
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	18123147	-23234	362579	213295	2006507	1626264
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	79128	-432	7248	4165	23959	11413
7 ख.3 भुनाए गए	224971	1126	11679	3912	40638	15935
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	13732	-55	-871	-1389	-3034	-1808
7 ख.5 भुनाए गए	22185	-441	-680	-791	-2282	-759

नोट: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

यद/समास सप्ताह	2024	2025				
	जुलाई 19	जून 20	जून 27	जुलाई 4	जुलाई 11	जुलाई 18
	1	3	4	5	6	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	..	..	4.35	..	4.35	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	78.91	..	79.15	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	28.66	..	29.42	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	28.59	..	28.79	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	-0.13	..	2.46	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
नियत रिर्व रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
बैंक दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
आधार दर	9.10/10.40	9.10/10.30	9.10/10.30	9.10/10.30	8.50/10.30	8.50/10.30
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.10/8.60	8.15/8.25	7.95/8.25	7.95/8.20	7.95/8.20	7.95/8.20
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.30	5.85/6.70	5.85/6.70	5.85/6.70	5.85/6.70	5.85/6.70
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.50/2.75	2.50/2.75	2.50/2.75	2.50	2.50
मांग मुद्रा दर (भारंकिंत औसत)	6.48	5.27	5.29	5.31	5.32	5.35
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.74	5.36	5.41	5.37	5.39	5.39
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.85	5.46	5.54	5.50	5.54	5.54
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.87	5.50	5.57	5.55	5.58	5.59
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	7.00	6.33	6.33	6.33	6.33	6.31
संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया®						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.64	86.61	85.56	85.39	85.85	86.20
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	91.07	99.76	100.20	100.60	100.29	100.16
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	1.11	1.62	1.65	1.39	1.39	1.55
3-माह	1.18	1.57	1.66	1.61	1.52	1.60
6-माह	1.39	1.68	1.79	1.73	1.70	1.74

*प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@ 10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीकी डॉलर / भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मद्रुओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फारवर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दूर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	जुलाई 11	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27286589	28141286	-89169	-0.3	761227	3.1	854697	3.1	2403406	10.3	2440199	9.5
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3729016	6363	0.2	58617	1.7	98264	2.7	232221	7.2	260123	7.5
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	2944924	-270452	-8.4	-53320	-2.1	104901	3.7	212060	9.1	411356	16.2
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20702508	21357214	173483	0.8	758496	4.0	654706	3.2	1941772	11.0	1750558	8.9
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	110133	1436	1.3	-2565	-2.7	-3174	-2.8	17352	23.3	18162	19.7
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8510825	8614205	94172	1.1	90793	1.2	103379	1.2	331658	4.5	919840	12.0
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1508105	1586327	72966		-111676		78221		-163378		504790	
2.1.2 अन्य बैंक	7002720	7027878	21206	0.3	202470	3.2	25158	0.4	495036	8.1	415050	6.3
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	19068129	19259766	-23606	-0.1	373347	2.2	191637	1.0	2091911	13.5	1683587	9.6
2.2.1 रिज़र्व बैंक	38246	7965	-1065		-3299		-30281		7063		-3142	
2.2.2 अन्य बैंक	19029883	19251801	-22541	-0.1	376646	2.2	221918	1.2	2084849	13.5	1686730	9.6
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6027804	6285563	-31690	-0.5	217891	3.9	257759	4.3	706395	13.9	500168	8.6
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36632	37652	0	0	634	1.9	1020	2.8	3141	10.2	3586	10.5
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं	6356801	6055899	128045	2.2	-78562	-1.4	-300902	-4.7	729699	15.7	666983	12.4
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	2147427	2176784	8140	0.4	-71010	-4.0	29357	1.4	130338	8.2	457660	26.6

नोट: 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दूर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	जुलाई 18	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4829243	4964256	37891	0.8	83179	1.8	135013	2.8	371653	8.6	249631	5.3
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3724448	3811252	-14033	-0.4	43071	1.2	86804	2.3	215317	6.4	256720	7.2
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	991488	1045162	54215	5.5	44116	4.3	53673	5.4	137019	14.7	-24403	-2.3
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	107843	-2290	-2.1	-4008	-4.2	-5464	-4.8	19316	27.1	17315	19.1
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1508105	1603965	17638		-130268		95859		-86747		541020	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1475460	1577713	11774		-143473		102253		-93624		534530	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-119015	-307431	22105		-51668		-188416		-2270		-209616	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-157261	-315666	21835		-48382		-158405		-8721		-206731	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	5823240	14533	0.3	218471	4.2	272292	4.9	651167	13.5	363686	6.7
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	37652			634	1.9	1020	2.8	3141	10.2	3586	10.5
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	2147427	2193169	16385	0.8	-46010	-2.6	45742	2.1	193639	12.5	449045	25.7

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6		8	9	
जुलाई 14, 2025	-	-	-	-	838	116037	-	-	-	-115199
जुलाई 15, 2025	-	-	-	57450	869	97432	-	-	-	-154013
जुलाई 16, 2025	-	-	-	-	879	109064	-18	-	-	-108203
जुलाई 17, 2025	-	-	-	-	808	106279	-5	-	-	-105476
जुलाई 18, 2025	-	-	-	200027	951	116590	293	-	-	-315373
जुलाई 19, 2025	-	-	-	-	819	111162	-	-	-	-110343
जुलाई 20, 2025	-	-	-	-	1179	103669	-	-	-	-102490

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024		2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	मई	जून	मई	जून	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	187.7	190.2	193.0	194.2	0.6	1.1	2.1
1.1 ग्रामीण	189.4	192.2	194.3	195.5	0.6	0.8	1.7
1.2 शहरी	185.7	187.8	191.5	192.6	0.6	1.4	2.6
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	139.9	141.4	144.0	..	..	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	153.5	154.0	154.1	153.8	-0.2	-0.6	-0.1
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	188.1	192.3	184.3	185.8	0.8	0.2	-3.4
3.2 ईंधन और बिजली	150.1	146.9	146.7	143.0	-2.5	-6.0	-2.7
3.3 विनिर्मित उत्पाद	142.0	142.0	144.9	144.8	-0.1	0.1	2.0

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, और श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
जून 27, 2025	517439	85608	5.77 - 6.63
जुलाई 11, 2025	525254	18576	5.67 - 6.49

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
जून 30, 2025	500001	58022	5.71 - 13.84
जुलाई 15, 2025	534009	79530	5.51 - 12.67

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	जुलाई 19, 2024	जुलाई 11, 2025	जुलाई 18, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	15785	29963	28444
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	5357	2214	7685
3 त्रिपक्षीय रेपो	739055	663802	788486
4 बाजार रेपो	632592	633563	750243
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	3352	9481	9722

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

जुलाई 18, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	16088	16781	92777	223377
182-दिवसीय	51612	51354	17419	211319
364-दिवसीय	75410	74963	46563	354463
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (जुलाई 18, 2025 तक)	2024-25 (जुलाई 19, 2024 तक)	2024-25	2025-26 (जुलाई 18, 2025 तक)	2024-25 (जुलाई 19, 2024 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	458000	422000	1400697	322914	287399	1039275
2. राज्य सरकारें	259149	172604	1073310	173423	103641	753345

भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 की ओर से श्री आशीष थॉमस जॉर्ज, निदेशक द्वारा संपादित और श्री जी.वी. नथनएल द्वारा प्रकाशित।